

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 अप्रैल 2019 — वैशाख 4, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-9/2019/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ब सहपठित बारहवीं अनुसूची तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 355 सहपठित धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिका सेवा (वेतनमान एवं भत्ता) नियम, 1967 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 10 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

“10-क. स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित नगरपालिका शालाओं से संबंधित विशेष प्रावधान.— ऐसे नगरपालिका शालाओं, जिनका प्रबंधन 1 मई, 2015 को या इसके पश्चात् स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई हो, के प्राचार्य, व्याख्याता, उच्च श्रेणी शिक्षक/प्रधान पाठक की पदोन्नति, जब तक कि फीडर कैंडर में अभ्यर्थी उपलब्ध होते हैं, तब तक पूर्ववत् नगरपालिका द्वारा किया जाता रहेगा; किन्तु यदि फीडर कैंडर में इन पदों के लिये अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसे पद, स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित माने जायेंगे तथा ऐसे पदों की रिक्तियों की पूर्ति स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जायेगी।”

2. अनुसूची-तीन में, शीर्षक “8. शिक्षा विभाग” के अन्तर्गत, सरल क्रमांक 1, 2, 3, 4 तथा 5 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2019

क्रमांक एफ 5-9/2019/18.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-9/2019/18, दिनांक 24-04-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 24th April 2019

NOTIFICATION

No. F 5-9/2017/18. - In exercise of the powers conferred by Article 243W read with Twelfth Schedule of the Constitution of India and Section 355 read with Section 95 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Municipal Services (Scale of Pay and Allowances) Rules, 1967, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. After rule 10, the following shall be added, namely:-

"10-A. Special Provision Relating to Municipal Schools Transferred to School Education Department.- Promotion to the posts of Principal, Lecturer, Upper Division Teacher/Head Master of Municipal schools, whose management has been transferred on or after the first day of May, 2015 to the School Education Department, if candidates are available in the feeder cadre, shall be done by the Municipality as was being done formerly; but if candidates for these posts are not available in the feeder cadre then such posts shall be deemed to have been transferred to the School Education Department and vacancies in such posts shall be filled up by the School Education Department."

2. In Schedule-III, Under the heading "8.Education Department", serial number 1, 2, 3, 4 and 5 and entries relating thereto shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.